

CEAT's Goenka elected as ATMA chairman

FE BUREAU

Thiruvananthapuram, March 22

ANANT GOENKA, CEAT'S managing director and member of management board of RPG Enterprises, has been unanimously elected as chairman of Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA), the national industry body for automotive tyre sector in India. Rajeev Anand of Goodyear India is the new vice-chairman.

As one of the youngest chief executives in the automotive space, Anant Goenka has been at the helm of CEAT as MD for the last five years. Prior to joining the RPG Group, Goenka has worked with Hindustan Unilever & Accenture in Mumbai and with Morgan Stanley in Hong Kong. He recently led CEAT as first tyre company outside of Japan to win the Deming Prize, one of the most prestigious global quality awards in the world. He is an MBA from the Kellogg School of Management and a BS (Economics) from the Wharton School, University of Pennsylvania.

Meanwhile, Anand has been with Goodyear India for almost 36 years. He took on the country leadership of the company in 2009, when the country was going through a rough economic patch due to negative global cues and turned it around within a year.

CEAT's Goenka elected as ATMA chairman

FE BUREAU

Thiruvananthapuram, March 22

ANANT GOENKA, CEAT'S managing director and member of management board of RPG Enterprises, has been unanimously elected as chairman of Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA), the national industry body for automotive tyre sector in India. Rajeev Anand of Goodyear India is the new vice-chairman.

As one of the youngest chief executives in the automotive space, Anant Goenka has been at the helm of CEAT as MD for the last five years. Prior to joining the RPG Group, Goenka has worked with Hindustan Unilever & Accenture in Mumbai and with Morgan Stanley in Hong Kong. He recently led CEAT as first tyre company outside of Japan to win the Deming Prize, one of the most prestigious global quality awards in the world. He is an MBA from the Kellogg School of Management and a BS (Economics) from the Wharton School, University of Pennsylvania.

Meanwhile, Anand has been with Goodyear India for almost 36 years. He took on the country leadership of the company in 2009, when the country was going through a rough economic patch due to negative global cues and turned it around within a year.

VIR ARJUN N. D 22/03/18

राष्ट्रीय रबड़ नीति बना रही है सरकार : प्रभु

नई दिल्ली, (भाषा)। वाणिज्य मंत्रालय राष्ट्रीय रबड़ नीति तैयार कर रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने आज कहा कि रबड़ क्षेत्र के समक्ष विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए राष्ट्रीय रबड़ नीति लाने की तैयारी है। प्रभु ने पीटीआई भाषा से कहा, यह नीति इसलिए जरूरी है क्योंकि क्षेत्र के समक्ष कई तरह की चुनौतियां हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस नीति के जरिये सभी मुद्दों को हल कर दिया जाए। इस बारे में हमारी एक बैठक हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति का उद्देश्य निर्यात और रबड़ उत्पादन बढ़ाना है। ऐसा करते समय किसान हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इन मुद्दों से निपटने के लिए एक कार्यबल गठित किया गया है,



जिसमें राज्यों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं। यह कार्यबल इन मुद्दों लघु अवधि का समाधान तथा दीर्घावधि की रणनीतियां सुझाएगा। क्षेत्र के समक्ष प्रमुख मुद्दों में प्राकृतिक रबड़ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, आयात पर अंकुश, न्यूनतम आयात मूल्य, कृषि उत्पाद के रूप में प्राकृतिक रबड़ का वर्गीकरण, सेफगार्ड शुल्क और रबड़ बोर्ड के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि शामिल है।

BUSINESS LINE

N. D 23/03/18

Spot rubber continues to slide

Kottayam, March 22

Spot rubber continued to rule weak on Thursday. RSS-4 dropped to ₹123 (123.50) a kg, according to traders and the Rubber Board. The grade slid to ₹120 (120.50) as reported by the dealers. April futures declined to ₹119.10 (122.24), May to ₹121.65 (124.26), June to ₹124.60 (127.02) and July to ₹117.12 (129.93) on the NMCE. RSS-3 (spot) weakened to ₹113.33 (113.42) at Bangkok. Its March futures slid to ₹109.41 (109.51) on the TOCOM. Spot rubber rates (₹/kg): RSS-4: 123 (123.50); RSS-5: 119.50 (120); ISNR 20: 113.50 (114) and Latex (60% drc): 83.50 (83.50). OUR CORRESPONDENT